



# POLICE COMMISSIONERATE



## GAUTAM BUDH NAGAR

सराहनीय कार्य/ प्रेस विज्ञप्ति - दिनांक 18.11.2022

**1-थाना दादरी पुलिस द्वारा नशीला पदार्थ खिलाकर वाहन चोरी करने वाले 05 शातिर चोर गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की 03 ई-रिक्शा बरामद।**

दिनांक 17.11.2022 को थाना दादरी पुलिस द्वारा नशीला पदार्थ खिलाकर वाहन चोरी करने वाले 05 शातिर चोर 1.सलीम पुत्र कदीर निवासी यमुना विहार, मुस्तफाबाद, गली न0-24, थाना गोकलपुरी, दिल्ली 2.गुलफाम पुत्र उस्मान निवासी मुस्फाबाद, गली नं0-21, थाना गोकलपुरी, दिल्ली 3.शमशाद पुत्र मोहम्मद इलियास निवासी म0नं0 डी-175, गली नं0-12, मुस्तफाबाद, थाना गोकलपुरी, दिल्ली 4.सलमान पुत्र इरफान निवासी मुस्तफाबाद, गली नं0-23, थाना गोकलपुरी, दिल्ली 5.कबीर पुत्र नवाब निवासी मुस्तफाबाद, गली नम्बर-7, थाना गोकलपुरी, निकट दिलशाद मस्जिद, दिल्ली को थाना क्षेत्र के बिसहाडा रोड दादरी बाईपास से गिरफ्तार किया गया है।

अभियुक्तों के कब्जे से थाना दादरी नवीन मण्डी के पास दिनांक 18/10/2022 को चोरी की गई ई-रिक्शा जिसके सम्बन्ध में थाना दादरी पर मु0अ0सं0 508/2022 धारा 328/379 भादवि व दादरी बाईपास से दिनांक 12.11.2022 को चोरी की गई ई-रिक्शा जिसके सम्बन्ध में थाना दादरी पर मु0अ0सं0 548/2022 धारा 328/379 भादवि पंजीकृत है व जनपद गाजियाबाद बस अड्डे के पास से चोरी कि गई ई-रिक्शा बरामद कि गई है।

अभियुक्तों द्वारा बताया गया कि वह सभी लोग दादरी व आस-पास के क्षेत्रों से जहरखुरानी कर लोगों का सामान व उनके वाहन को चोरी करने जैसी घटना करते रहते है।

### **अभियुक्तों का विवरण:**

- 1.सलीम पुत्र कदीर निवासी यमुना विहार, मुस्तफाबाद, गली न0-24, थाना गोकलपुरी, दिल्ली।
- 2.गुलफाम पुत्र उस्मान निवासी मुस्फाबाद, गली नं0-21, थाना गोकलपुरी, दिल्ली।
- 3.शमशाद पुत्र मोहम्मद इलियास निवासी म0नं0 डी-175, गली नं0-12, मुस्तफाबाद, थाना गोकलपुरी, दिल्ली।
- 4.सलमान पुत्र इरफान निवासी मुस्तफाबाद, गली नं0-23, थाना गोकलपुरी, दिल्ली।
- 5.कबीर पुत्र नवाब निवासी मुस्तफाबाद, गली नम्बर-7, थाना गोकलपुरी, निकट दिलशाद मस्जिद, दिल्ली।

### **पंजीकृत अभियोग /आपराधिक इतिहासका विवरण:**

- 1.मु0अ0सं0 508/2022 धारा 328/379 भादवि थाना दादरी, गौतमबुद्धनगर।

2.मु0अ0सं0 548/2022 धारा 328/379 भादवि थाना दादरी, गौतमबुद्धनगर।

3.मु0अ0सं0 553/2022 धारा 414 भादवि थाना दादरी, गौतमबुद्धनगर।

4.मु0अ0सं0 72/2022 धारा 379/411 भादवि थाना साईन बाग, दिल्ली।

#### **बरामदगी का विवरण:**

1.चोरी की 03 ई-रिक्शा(मु0अ0सं0 508/2022 धारा 328/379 भादवि से सम्बन्धित चोरी गई ई-रिक्शा व मु0अ0सं0 548/2022 धारा 328/379 भादवि मे सम्बन्धित चोरी गई ई-रिक्शा व 01 ई-रिक्शा जनपद गाजियाबाद से चोरी की गयी)



#### **2-थाना सेक्टर-58 नोएडा पुलिस द्वारा 01 दुपहिया वाहन चोर गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की मोटरसाइकिल बरामद।**

दिनांक 17.11.2022 को थाना सेक्टर-58 नोएडा पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान 01 दुपहिया वाहन चोर अवनीश पुत्र श्री मुकेश बाबू निवासी निर्भयगढी, थाना नारखी, जिला फिरोजाबाद को छोटा डी पार्क के पास सेक्टर-62, नोएडा से गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त के कब्जे से चोरी की 01 मोटरसाइकिल प्लेटिना रजिस्ट्रेशन नं0 यूपी16एके-2293 बरामद की गई है।

#### **अभियुक्त का विवरण:**

अवनीश पुत्र श्री मुकेश बाबू निवासी निर्भयगढी, थाना नारखी, जिला फिरोजाबाद।

#### **पंजीकृत अभियोग/अपराधिक इतिहास का विवरण:**

1.मु0अ0सं0-529/22 धारा 414 भादवि थाना सेक्टर-58, नोएडा।

2.मु0अ0सं0-251/13 धारा 18/20 NDPS ACT थाना रसूलपुर, जिला फिरोजाबाद।

#### **बरामदगी का विवरण:**

01 मोटरसाइकिल प्लेटिना रजिस्ट्रेशन नं0 यूपी16एके-2293 (चोरी की)



**#पुलिस कमिश्नर गौतमबुद्धनगर के निर्देशन व पुलिस उपायुक्त महिला सुरक्षा के पर्यवेक्षण में यूनेस्को इंडिया व अफ्रीका हैकथॉन के गौतमबुद्धनगर में आयोजन के दृष्टिगत पुलिसकर्मियों को अफ्रीका की संस्कृति व आचार-विचार से परिचित कराने के उद्देश्य से "सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग" का अयोजन किया गया।**

दिनांक 18/11/2022 को पुलिस कमिश्नर गौतमबुद्धनगर के निर्देशन व पुलिस उपायुक्त महिला सुरक्षा गौतमबुद्धनगर के पर्यवेक्षण में पुलिस आयुक्त कार्यालय सेक्टर-108 के ऑडिटोरियम में "यूनेस्को इंडिया व अफ्रीका हैकथॉन" के गौतमबुद्धनगर में आयोजन के दृष्टिगत पुलिसकर्मियों को अफ्रीका की संस्कृति व आचार-विचार से परिचित कराने के उद्देश्य से "सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग" का अयोजन किया गया। उक्त ट्रेनिंग में शारदा यूनिवर्सिटी से आए विशेषज्ञों द्वारा उपस्थित पुलिसकर्मियों को अफ्रीकी संस्कृति व वहां के वातावरण के संबंध में अवगत कराते हुए आयोजन के दौरान आपेक्षित व्यवहार के संबंध में जानकारी दी गई। विचारों के आदान-प्रदान के साथ ही तकनीकी प्रशिक्षण भी दिया गया, जिससे विदेशी नागरिकों की संस्कृति को समझने में आसानी से सामंजस्य स्थापित किया जा सकेगा।

इस सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग में एसीपी-3 ग्रेटर नोएडा, एसीपी महिला सुरक्षा रमेश चंद्र, एसीपी वर्णिका व सभी थानों से आए लगभग 150 पुलिसकर्मियों द्वारा प्रतिभाग किया गया।

